

Date: 22.03.2024

BSE Limited National Stock Exchange Limited Department of Corporate Services Exchange Plaza, 5th Floor, Pheroze Jeejeebhoy Towers, Plot No. C/1, G Block Dalal Street. Mumbai-400001 Bandra- Kurla Complex, Mumbai-400051 SCRIP Code- 544133 Symbol-EXICOM

Sub: Intimation of publication of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2023.

Re: Regulation 47 of Listing (Obligations and Disclosures Requirement), Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

This is further to our earlier announcement dated March 21, 2024.

We hereby submit the copies of the extracts of the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023, of the Financial Year 2023-24, on Standalone and Consolidated basis, published on March 22, 2024, in the following newspapers, as per the requirements of Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations.

- 1. Business Standard English (copy attached)
- 2. Janpath (Solan) Hindi (copy attached)

You are requested to take the above information on records.

For Exicom Tele -systems Limited

Sangeeta Karnatak **Company Secretary & Compliance Officer**











GETTING IN TUNE WITH THE TIMES

The new competition law catches up with the realities of a digital world, but now faces a litmus test in the Google Play billing case

RUCHIKA CHITRAVANSHI New Delhi, 21 March

ast week, Google Play billing policy came under the scanner of the Competition

Commission of India (CCI) for allegedly imposing unfair service fees on app developers. This, perhaps, is one of the first investigations ordered by the antitrust watchdog since the Competition Amendment Act 2023 was notified on February 20, with one of its highlights being the incentives to a cartel under investigation to tell on other cartels

But we will come to that in

a moment.

India's competition law was originally designed for brickand-mortar companies. It was not in tune with the digital revolution that swept across the business landscape during the last decade or so. But the law made do by what some might call the Jugaad way to deal with the gig and the digital economy. Now, though, the law seems to have caught up with the times.


The litmus test of how well it has caught up, say experts, is how the provisions of the amended Act are applied in the matter of Google Play Store. Whether the search and software giant opts for the settlement and commitment scheme — one of the new facets of the law — in the days to come would be closely watched by competition law practitioners and digital companies alike.

"The proof of the pudding is in the eating. How the CCI implements the new provisions and ensures that the legislative intent is not compromised would be of utmost importance. The CCI now has to build trust among stakeholders," says an industry expert.

Turning point

From introducing the leniency plus and settlement and

REGULATOR'S REPORT



* The report does not explain why the present working strength and vacancy position for DG, CCI do not add up to the sanctioned strength; data as on May 11, 2023

218

ANTI-COMPETITIVE CASES

Till date

No contravention

Remedial orders issued

isposea	1,102	case
o contraventioned found	699	Prim
rima facie conrtavention	502	Und
		Inve
f these 502 cases		filed
nvestigation report filed	454	

As on April 30, 2023 Cases before CCI na Facie stage 48 ler investigation estigation reports 47

Source: 63rd report of Standing Committee on Finance (2022–23)

Plus', a cartelist who is cooperating with the CCI for leniency can disclose the existence of another cartel in an unrelated market. The cartelist can do so in the course of the original leniency proceedings in exchange for an additional reduction in penalty.

'There is now flexibility for the CCI as well as the market participants to correct anticompetitive practices, instead of expending time and resources in protracted proceedings," says Unnati Agrawal, Partner, IndusLaw.

Balancing innovation and regulation

The recent Digital Competition Bill has not received the full support of all stakeholders, with many of the so-called Big Tech companies calling for lighttouch regulation that does not stifle innovation.

When the Ministry of Corporate Affairs invited comments on the expert

 $committee\, report\, and\, the\, draft$ Digital Competition Bill, Google, Apple, Flipkart, Amazon, and Uber opposed ex-ante regulation.

Ex-ante regulations are preemptive measures that prohibit companies from restricting third-party apps, imposing antisteering provisions, engaging in self preferencing, or misusing business users' data. The Digital Competition Bill has proposed that Systemically Significant Digital Enterprises, which will be identified on the basis of the number of their users in India, turnover in the country, global turnover, global market capitalisation, or other equivalent parameters, must declare themselves as such to the CCI.

While Twitter and Paytm were in favour, the latter said it was in favour as long as only large digital enterprises with a critical mass were subject to the regulations.

Finance Minister Nirmala Sitharaman, when she recently met financial sector regulators

and fintech companies and startups, encouraged new-age firms to continue to innovate while keeping a close watch on the regulatory norms.

Some experts sound a note of caution.

"Lawmakers would need to be nimble-footed and quickly address any changes that may be required to ensure that India remains on the technology and innovation bandwagon and regulatory oversight does not become burdensome for the industry," says Anshuman Sakle, Partner, Khaitan & Co.

However, balancing innovation and regulation is not the only challenge for the CCI. It is staring at a triple mandate of implementing the existing Competition Act, cases under the National Anti-profiteering Act, and the proposed Digital Competition Bill. Its sanctioned strength, however, has remained the same and 70 of 195 places are vacant, according to a parliamentary panel's report.

"One challenge that both companies and lawmakers might face in the future is ensuring effective enforcement of the Competition Law across all sectors, including emerging digital markets, since the ex-ante regulation requires companies and lawmakers to be on a continuous vigil to ensure that non-compliance does not go scot-free," says Sucharita Basu, Managing Partner, Aquilaw.

Meanwhile the CCI itself is going to have a review by the Ministry of Corporate Affairs over its state of affairs, amid concerns over inaction on pending complaints and regulations that are yet to be notified.

The latest report by the expert committee on digital competition law also noted the time-consuming nature of investigation and enforcement proceedings by the CCI. It cited the case of Matrimony.com Limited vs Google LLC, where the CCI took six years to adjudicate on the matter, but found that even after a period of 11 years, the matter had not reached finality and was still sub-judice before the National Competition Law Appellate Tribunal.

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU (ORIGINAL JURISDICTION)

IN THE MATTER OF M/s UNITED BREWERIES (HOLDINGS) LIMITED (IN LIQN.)

E-AUCTION NOTICE FOR LEASE

Online competitive bids are hereby invited as per the orders of the Hon'ble High Court of Karnataka vide order dated 08.11.2023 passed in OLR No.91/2023 for "LEASE" of the below mentioned vacant spaces owned by United breweries (Holdings) Limited (in liquidation) (for commercial office use on monthly lease rental basis) at UB City. 24. Vittal Mallya Road, Bengaluru-560 001, India. "On as is, where is and whatever there is basis" through e-auction platform (https://olauction.enivida.com/) to be conducted by M/s. RailTel Corporation of India Limited. Date and time of Inspection of premises will be on 01.04.2024 & 02.04.2024 from 11 .00 a.m. to 4.00 p.m.

Details of vacant premises proposed for leasing, i.e., Reserve price, EMD, Date of E-auction are as under: -

CANBERRA BLOCK											
Lot No.	Floor Number	Super Built Area in Sq.Ft	No. of Car Parkings (*)		Opening Bid/ Start price	Date & time of e-auction					
1	Vacant Premises at 3rd floor	26,919	35	Rs.4,90,000/-	Rs.49,00,000/-						
2	Vacant Premises at 4th floor	26,919	35	Rs.4,90,000/-	Rs.49,00,000/-	on 17.04.2024					
3	Vacant Premises at 5th floor	26,919	35	Rs.4,90,000/-	Rs.49,00,000/-	from 11.00					
4	Vacant Premises at 6th floor	26,919	27	Rs.4,90,000/-	Rs.49,00,000/-	hrs to 17.00 hrs					
5	Vacant Premises at 7th floor	26,919	21	Rs.4,90,000/-	Rs.49,00,000/-						
6	Vacant Premises at 8th floor	26,919	20	Rs.4,90,000/-	Rs.49,00,000/-						
7	Vacant Premises at 10th floor	26,919	27	Rs.4,90,000/-	Rs.49,00,000/-	on					
8	Vacant Premises					18.04.2024					
	at 11th floor	9,360	9	Rs.1,70,000/-	Rs.17,00,000/-	from 11.00					
<u> </u>	east portion					hrs to					
9	Vacant Premises	21,819	22	Rs.4,00,000/-	Rs.40,00,000/-	17.00 hrs					
40	at 14th floor	, ,	_ _	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,70,000						
10	Vacant Premises	40.000	47	D = 0.00.000/	D = 00 00 000/						
	at 15th floor	12,689	17	Rs.2,30,000/-	Rs.23,00,000/-						

	south portion					
			UB TO	WER		
Lot No.	Floor Number	Super Built Area in Sq.Ft	No. of Car Parkings	EMD	Opening Bid/ Start price	Date & time of e-auction
11	Vacant Premises	8,414		Rs.1,60,000/-	Rs.16,00,000/-	on
	at 12th floor					19.04.2024
12	Vacant Premises	8,414	41	Rs.1,60,000/-	Rs.16,00,000/-	from 11.00
	at 14th floor		41			
13	Vacant Premises	8,414		Rs.1,60,000/-	Rs.16,00,000/-	hrs to
	at 15th floor					17.00 hrs

*Rent for Car Parkings (per month/car) extra as prevailing/market rate.

Place: Bangalore

Date :19.03.2024

The entire e-Auction catalogue containing Terms & Conditions of Lease for the schedules for giving full particulars of events of e-auction, guidelines for online registration and full details of Vacant Spaces of the subject matter for "Lease" are available on website of M/s. RailTel Corporation of India Limited website: https://olauction.enivida.com/ and can be viewed by clicking on the following URL of: https://olauction.enivida.com/ and the Official Liquidator's

website: www.olkarnataka.kar.nic.in, Ministry's Website at www.mca.gov.in. The intending bidders may contact Ms. Sujatha, Sr. Manager, Mobile No. 8448288989/ Sri. Gagan, Mobile No.8448288987 of M/s. RailTel Corporation of India, Bengaluru for doubts / clarifications if any on the e-auction procedure. For details about the Vacant Spaces contact Sri M.Venkatarama Reddy, Assistant working in the office of the Official Liquidator on his Mobile. No.9845415102 or to contact the officials of the Official Liquidator, Karnataka during working hours.

> Sd/- (C V SAJEEVAN) OFFICIAL LIQUIDATOR, HIGH COURT OF KARNATAKA CORPORATE BHAVAN", No.26-27, 12TH FLOOR, RAHEJA TOWERS, M.G. ROAD, BENGALURU-01. Tel No:080-25598671/72

Markets, **Monday to Saturday**

competition law is now

poised for a historic

turning point.

These are all very

and in line with

international

practices. It

is a sign that the

law and regulator

are more mature and

Lakshmikumaran &

Sridharan Attorneys.

Experts say though the

iurisdictions, such as the

Kingdom, the competition

regime in India is based on

the specific requirements

and challenges of the

domestic markets.

Competition Law amendments

have drawn on the more mature

European Union and the United

'This is the very reason why,

unlike an arbitration convention,

other frameworks, we must adapt

to determining the successes and

grapple with the changing Indian

Most experts agree that many

scenarios," says Sukrit Kapoor,

business-friendly and realistic.

without admission of guilt, opt

commitment option and provide

a full and true disclosure of facts

Similarly, under 'Leniency

For instance, companies can,

Partner, King Stubb & Kasiva,

Advocates and Attorneys.

of the recent changes are

for the settlement or

in respect of the alleged

contraventions of the Act.

it is next to impossible to have a

global competition treaty or

failures of our competition

regime on its ability to truly

convention. Rather than comparing our regime with any

progressive steps

best

To book your copy, sms reachbs to **57575** or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

quast

Place : Mumbai

quant Mutual Fund

Registered Office: 6th Floor, Sea Breeze Building, A. M. Road, Prabhadevi, Mumbai - 400 025. Tel.: +91 22 6295 5000 E-mail: help.investor@quant.in Website: www.quantmutual.com

CORRIGENDUM TO NOTICE CUM ADDENDUM NO. 05/2024

Corrigendum being issued in continuation of Notice cum Addendum no. 05/2024 issued on March 16, 2024 that Mr. Harshvardhan Bharatia has been appointed as Dealer – "Debt" of quant Money Managers Limited with effect from March 15, 2024. Ms. Nupur 'Gandhi" has resigned from the post of Dealer - Debt of quant Money Managers Limited due to her personal reasons with effect from March 11, 2024. All other contents of the Notice shall remain the same as before.

For quant Money Managers Limited Sd/-

Authorised Signatory MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

exicom EXICOM TELE-SYSTEMS LIMITED

Regd. Office: 8. Electronics Complex, Chambaghat, Solan 173213, Himachal Pradesh, India Telephone: +91 124 6615 200, Email: investors@exicom.in. Website: www.exicom.in. CIN: U64203HP1994PI C014541

Extracts of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and nine months ended December 31, 2023 Particulars Standalone Consolidated Corresponding Preceeding Corresponding Preceeding Year to Previous Three Year to Year to Previous Year to months three months three months dated dated **Financial** months three three months dated dated Financial Ended in the Ended in the ended Ended Figure for figure for ended months Figure for figure for Previous year Current Previous Ended Previous Previous year Current ended ended ended ended March Decembei December March December Decembe 31, 2023 30, 2023 31, 2022 31, 2023 31, 2022 31, 2023 31, 2023 30, 2023 31, 2022 31, 2023 31, 2022 31, 2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited **Audited** 14,508.63 58,430.19 33,787.40 53,405.69 26,529.27 15,019.01 73,263.98 36,869.45 72,339.87 Total income from continuing Operations (net) 26,267.92 16,174.27 19,817.72 Net profit/(Loss) for the period (before tax. 2.648.52 594.53 2.137.12 1.133.38 5.667.85 1.577.92 3.656.16 2.216.91 2.258.99 1.089.88 5.808.12 3.230.18 exceptional and /or extra ordinary item), from continuing operations Net profit/(Loss) for the period before tax (after 2.137.12 1.133.38 5.667.85 1.577.92 3.656.16 2.216.91 2.258.99 1.089.88 5.808.12 594.53 3.230.18 exceptional and/or extra ordinary item) from continuing operations 1,330.62 1,699.77 3,544.17 3,249.76 1,782.49 1,035.25 3,645.10 506.49 3,267.35 Net profit/(Loss) for the period after tax (after 1,033.02 1,266.49 898.82 exceptional and/or extra ordinary items), from continuing operations Total Comprehensive income for the period 1,339.35 1,687.75 621.88 3,528.88 (1,191.90)768.50 1,474.68 2,002.88 1,415.56 4,486.62 (978.52)1,210.04 (comprising profit & loss account for the period after tax and other comprehensive income after tax) 9.239.62 9.239.62 723.02 9.239.62 723.02 723.02 9.239.62 9.239.62 723.02 9.239.62 723.02 6 Paid-up Equity Share capital (Face Value of 723.02 ₹10/-each) 14,337.69 22,476.85 7 Other Equity 8 Earnings per equity share (for continuing operations)* (Face Value of ₹10/-each) Basic (In ₹) 1.44 1.85 1.12 3.85 1.38 3.54 0.98 1.94 1.13 3.96 0.55 3.55 Diluted (In ₹) 1.44 1.85 1.12 3.85 1.38 3.54 0.98 1.94 1.13 3.96 0.55 3.55 Earnings per equity share (for discontinued operation)* (Face Value of ₹10/-each) (0.42)(2.68)(2.68)(0.42)(2.68)(2.68)Basic (In ₹) Diluted (In ₹) (2.68)(2.68)(0.42)(2.68)(2.68)(0.42)Earnings per equity share (for discontinued & continuing operations)* (Face Value of 0.87 1.85 3.85 0.98 1.94 Basic (In ₹ 1.44 0.70 (1.30)0.85 0.70 3.96 (2.13)Diluted (In ₹) 1.44 1.85 0.70 3.85 (1.30)0.85 0.98 1.94 0.70 3.96 (2.13)0.87

*Basic and Diluted earnings per share has been presented considering the adjustments for issue of bonus shares for comparative period


- 1. The above Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on March 21, 2024. These Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company and they have issued an unmodified review report on these Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results.
- 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 filed with Stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial result are available on the Company's website i.e www.exicom.in and Stock exchange website at BSE (www.bseindia.com) and NSE

By the order of the Board For Exicom Tele-Systems Limited **Anant Nahata** Managing Director Cum CEO DIN:02216037

Place: Gurugram Date: March 21, 2024









भाजपा का कोई प्रयोग नहीं होगा सफलः कुमारी सैलजा

● लोकसभा व विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने को तैयार जनता ● कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए बदले सीएम और मंत्री

भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में किसी बहाने से तुरंत रोक दिया भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रयोग सफल नहीं जाता। प्रदेश की जनता जान होगा। प्रदेश के लोग इनके साढ़े 9 साल के कुशासन से तंग आ चुके हैं और लोकसभा व में ये बराबर के हिस्सेदार थे। विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने के लिए पूर्व केंद्रीय ने कहा कि अब तैयार हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चेहरे बदल कर भाजपा ने अपने कुशासन व कुकृत्यों पर पर्दा डालने की जो कोशिश की है, उसमें इन्हें रत्ती भर गठरी पूरी तरह से जजपा के भी सफलता नहीं मिलने वाली। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा व जजपा का गठबंधन था तो एक बार भी किसी भी घोटाले की जांच को अंजाम तक नहीं पहुंचाया

हिन्द जनपथ, चंडीगढ (ब्युरो)। अखिल जांच शुरू की गई, लेकिन जब भी किसी बड़े नेता गठबंधन किया था, ताकि प्रदेश के लोगों के खुन-की भूमिका सामने आती तो जांच को किसी न पसीने की कमाई को ठगा जा सके

चुकी है कि भ्रष्टाचार व घोटालों आने वाले दिनों में भाजपा नेता साढे 4 साल के भ्रष्टाचार की सिर पर रखते हए नजर आ सकते हैं। खुद को पाक-साफ गठबंधन तोड़ने की वजह

सरकार में गया, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई को चूसने में ये भ्रष्टाचार को बता सकते हैं। जबकि, इन्होंने प्रदेश बदलाव करने का आखिरी दांव खेला। लेकिन, राजनीतिक आकाओं के मार्फत मनमाफिक दोनों बराबर के भागीदार रहे हैं। कुछ घोटालों की के जनमत के विपरित आपसी हित साधने के लिए इस दांव का प्रदेश भाजपा के अंदर ही जोर-शोर महकमे के लिए दबाव बनाने में लगे हैं।

से विरोध होने लगा है। यही कारण है कि मंत्री बनने के प्रबल दावेदारों की जगह ऐसे चेहरों को शपथ दिलाई गई, जो डमी मोहरे ही बने रहेंगे। पूर्व कहा कि मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्री पद पाने वाले भाजपा नेताओं को पता है कि यही उनकी पार्टी की सत्ता का आखिरी दौर है, इसलिए मंत्रिमंडल बनने के बाद उनमें मलाईदार महकमा हासिल करने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। इनका मकसद सत्ता से जाते-जाते अपना घर भरने का है, जनसेवा से इनका कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए ही मुख्यमंत्री अभी तक एक भी मंत्री को विभाग आवंटित नहीं कर पाए हैं, जबकि 5 कैबिनेट मंत्रियों ने उनके साथ ही शपथ ले ली थी। बाकी 8 मंत्री भी शपथ ग्रहण बनने के बाद अपने

चुनाव आयोग द्वारा जालंधर के नए डिप्टी कमिशनर की मस्जिद गुरिंदर सिंह, सूचना, लोक संपर्क, भाषा व संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्री विवेक कालिया तथा **हिन्द जनपथ, चंडीगढ़ (ब्यूरो)।** पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि भारतीय विमान आयोग ने संयुक्त निर्वाचन अधिकारी , हरियाणा श्री राजकुमार इस

राज्य विजेन्सिल ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया

कि मुलजिम को नरेश डोगरा निवासी बज़ार,

अमृतसर द्वारा गिरफ्तार पर याचिका के आधार पर

दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि

मोनिका ने विजेंसिल ब्यूरो से संपर्क करके दोष

लगाया है कि उक्त कथन मुलजिम ए.टी.ओ. उनके

पेंशन केस पास करने के लिए 20,000 रुपये की

रिश्वत की मांग की जा रही है। वकील ने बताया कि

इस याचिका की प्राथमिक जांच के बाद विजिलेंस

ब्युरो की टीम द्वारा जालसाज को 10,000 रुपये

रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया

गया। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में विजेंसिल

ब्यूरो के प्लांट, अमृतसर रेंज में मुआवजा क्षति

सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) गठित

की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तरीय मीडिया

सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे जबकि

भारत के चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक पर्यवेक्षक, सूचना,

लोक संपर्क, भाषा व संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री

मंदीप सिंह बराड़, पीआईबी/बीओसी, चंडीगढ़ की संयुक्त

निदेशक सुश्री संगीता जोशी, भारतीय प्रेस परिषद के श्री

के सदस्य • मीडिया सर्टिफिकेशन के लिए भी होगी अलग से कमेटी **हिन्द जनपथ, चंडीगढ़ (ब्यूरो)।** हरियाणा के मुख्य प्रदान करने या अस्वीकार करने के संबंध में की गई अपील पर निर्णय लेगी। ऐसी अपीलों पर निर्णय केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया के निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा ही दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का सही मायने में पालन लिया जायेगा। इस संबंध में चुनाव आयोग को संदर्भ देने की हो, इसके लिए राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार पेड न्यूज़ की विरुद्ध की उम्मीदवारों के राजनीतिक विज्ञापनों, पेड न्यूज व फेक न्यूज गई अपील के संबंध में जिला स्तर पर गठित मीडिया पर पैनी नजर रखने व इनके सर्टिफिकेशन अनुमति प्रदान सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) स्वतः करने के लिए राज्य स्तर पर व जिला स्तर पर मीडिया निर्णय लेगी और उम्मीदवार को नोटिस जारी करने के लिए

संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश जारी करेगी।

राज्य स्तर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग

कमेटी (एमसीएमसी) की गई गठित

• सूचना, लोक संपर्क, भाषा व संस्कृति विभाग के महानिदेशक होंगे कमेटी

इसी प्रकार भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार राज्य स्तर पर सर्टिफिकेशन कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा श्रीमती हेमा शर्मा को अध्यक्ष, हारट्रोन के निदेशक श्री यश गर्ग, हारट्रोन के उप महाप्रबंधक (पी एंड ए) श्री निर्मल प्रकाश तथा पीआईबी, चंडीगढ़ के उप निदेशक श्री हर्षित नारंग को कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह कमेटी सभी पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां जिनका मुख्यालय राज्य में स्थित है, सभी संगठनों, व्यक्तियों के समूह या एसोसिएशन जो राज्य में पंजीकत हैं।

को प्री-सर्टिफिकेशन के लिए दिए गए आवेदनों पर

५००४ वोटरः मुख्य निर्वाचन अधिकारी

 205 वोटरों की उम्र 120 साल से ज्यादा
85 साल से ज्यादा की उम्र वाले सभी वोटर अपने घर से ही वोट डाल सकते हैं : सिबिन सी

हिन्द जनपथ, चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब अधिक उम्र वाले सबसे ज़्यादा 77 पुरूष और वोटर हैं, जबकि 205 वोटरों की उम्र 120 साल से ज़्यादा है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 85 साल से ज्यादा की उम्र वाले सभी वोटर अपने घर से ही वोट डाल सकते हैं, और इस मकसद के लिए पहले ही सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों-कम-डिप्टी कमिश्नरों को

सिबिन सी ने बताया कि 1 मार्च 2024 तक 100 से 109 साल की उम्र वाले 1917 पुरूष और 2928 औरतें वोटर हैं। इसी तरह 110 से 119 साल तक के 59 पुरूष और 100 औरतें वोटर हैं। इस तरह 100 से 119 साल की उम्र तक के कुल वोटरों की संख्या

में 100 से 119 साल की उम्र तक के 5004 34 औरतें लुधियाना ज़िले में और इसके बाद 24 पुरूष और 25 औरतें फिरोज़पुर ज़िले में हैं। पहली बार वोट डालने वाले वोटरों संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 मार्च, 2024 तक राज्य में कुल 4 लाख 89 हजार 631 वोटर 18-19 साल उम्र वर्ग के हैं। इनमें 16 ट्रांसजैंडर वोटर भी शामिल हैं। जबिक 2 लाख 93 हज़ार 100 वोटर लडके और 1 लाख 96 हज़ार 515 वोटर लडिकयाँ हैं।

जि़ऋयोग्य है कि पंजाब में कुल 2 करोड़ 12 लाख 71 हज़ार 246 वोटर हैं। इनमें 1 करोड़ 11 लाख 92 हज़ार 959 पुरूष वोटर हैं, जबकि 1 करोड़ 77 हज़ार 543 औरतें वोटर हैं। सिबिन सी ने पंजाब के समृह वोटरों से अपील की है कि वह वोट 5004 बनती है। इसी तरह 120 साल से के अधिकार का बढ़-चढ़कर प्रयोग करें अधिक उम्र वाले 205 वोटरों में से 122 और 'इस वार 70 पार' के नारे को अमली

/₹ in lakhe unless otherwise stated\

लोकसभा चुनाव-2024ः

पंजाब में १०० से ११९ साल की उम्र के

निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

पुरूष और 83 औरतें वोटर हैं। 120 साल से जामा पहनाएं। बीएससी छठे सेमेस्टर, बीए ऑनर्स छठा सेमेस्टर, बीएससी (ऑनर्स) छठा सेमेस्टर, बीकॉम (जनरल, ऑनर्स व वोकेशनल), बीकॉम बैंकिंग व इंश्योरेंस, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए, बीटीएम, बीएससी फिजिकल ऐजुकेशन, बीएससी हैल्थ एजुकेशन व स्पोर्टस, बीएससी (ऑनर्स) इन्फोर्मेशन टेक्नॉलोजी, बीएससी फैशन डिजाइनिंग, बीए फैशन डिजाइनिंग, बीएससी इंटिरियर व बी.एफ.ए.डी. छठा समेस्टर, बीए (जनरल) व ऑनर्स (सब्सिडरी) छठे सेमेस्टर, बीएससी चौथा सेमेस्टर, बीए ऑनर्स चौथा सेमेस्टर, बीकॉम (जनरल, ऑनर्स व वोकेशनल), बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए, बीटीएम, बीएससी फिजिकल ऐजुकेशन, बीएससी हैल्थ एजुकेशन व स्पोर्टस, बीएससी (ऑनर्स) इन्फोर्मेशन टेक्नॉलोजी, बीएससी फैशन डिजाइनिंग, बीएससी फैशन एण्ड ऐपेरल डिजाइनिंग, बीएससी फैशन एण्ड

टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बीए फैशन, बीएससी इंटिरियर व बी.एफ.ए.डी. चौथा सेमेस्टर की परीक्षाएं शामिल हैं।

महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय बनाएगा फूलों से हर्बल गुलाल

कई तरह की फूल-पत्तियों पर अनुसंधान शुरू

हिन्द जनपथ,चंडीगढ़ (ब्यूरो)। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल द्वारा के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न फूल-पत्तियों से हर्बल गलाल तैयार किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में वैज्ञानिकों को गेंदे की फल पत्तियों और चुकंदर से हर्बल गुलाल तैयार करने में सफलता पाई हैं। एमएचयू द्वारा विभिन्न फूलों पर अनुसंधान किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने इस संबंध मे जानकारी देते हुए बताया कि महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों को किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना है। जैसे-जैसे प्राकृतिक खेती बढ़ेगी उसी अनुरूप लोगों का रुझान भी प्राकृतिक खेती के उपजी फसलों की ओर जाएंगा। उनके उत्पादों के फायदों के प्रति जागरूक करने के लिए एमएचयू तेजी से प्रयास कर रही हैं। उन्होंने बताया कि एमएचयू ने होली पर्व को देखते हुए गेंदे की फूल पत्तियों और चुकंदर से हर्बल गुलाल तैयार किया है जो केमिकल रहित है। बाकि कई प्रकार के फुलों से हर्बल गुलाल तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल लोगों में प्राकृतिक रंगों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ऐसे में एमएचयू द्वारा तैयार किए जा रहे हर्बल रंगों का रुझान एकदम बढेगा।

हर्बल गुलाल का रंग भी प्राकृतिक ही रखा गया - प्रवक्ता ने बताया कि एमएचयू की टीम ने फूल पत्तियों व फलों को सुखाकर बारीक पिसाई करके यह रंग तैयार किए है। किसी तरह का दूसरा रंग या केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया गया हैं। उन्होंने कहा कि जिन फूलों से हर्बल गुलाल बनाया गया हैं, वे उन फूलों की पैदावार भी उद्यान विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं की हैं। होली पर्व पर हर्बल गुलाल का प्रयोग करें।

गुरदासपुर के डिप्टी कमिशनर सुमन अग्रवाल को जालंधर का डिप्टी कमिशनर नियुक्त किया है। जबकि गुरदासपुर के डिप्टी कमेटी के सदस्य मनोनीत किये गए हैं। कमिश्नर विशेष सारंगल को नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जगदेले ब्लूअंबरी विक्ट्री को रोपड़ रेंज के एप्रोच और यह कमेटी किसी भी राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार या राकेश कमार एस्किल को एप्रोच बार्डर रेंज के लिए नियक्त किया गया है। किसी अन्य व्यक्ति को विज्ञापनों के संबंध में सर्टिफिकेशन निर्णय करेगी।

पेंशन केस पास डिलिवरी के बदले रिश्वत लेटर्स सहायक खजाना अधिकारी सर विजिलेंस ब्यूरो गिरफ्तार द्वारा



मंत्रिमंडल में फेरबदल से

खिसकने की पुरी रिपोर्ट

पहुंच चुकी थी। अपनी

पास

इनकी

जमीन

हिन्द जनपथ, चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब (ए.टी.ओ.), अमृतसर को एक पेंशन केश पास विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में पुरालेख के तहत गुरुवार करने के लिए एवेज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दिए

अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। मुल्जिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा और इस संबंध को मुनीष कुमार, सहायक खजाना अधिकारी हैं। इस संबंधित जानकारी में बताया गया है कि में आगे की कार्रवाई जारी है।

हिन्द जनपथ, चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब के वित्त विभाग ने ज़िला खज़ाना दफ़्तर, अमृतसर के सहायक खज़ांची मुनीश कुमार को तुरंत निलंबित करने के आदेश दिए हैं, जो कि 21 मार्च, 2024 को उसकी गिरफ्तारी की तारीख़ से तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुनीश कुमार को विजीलैंस विभाग द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के दोषों के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है। 🛭 उन्होंने बताया कि निलंबन के दौरान मुनीश की मुख्य दफ्तर ज़िला खज़ाना दफ्तर जालंधर में तैनाती निर्धारित की गई है। उसे पंजाब सिविल सेवाओं के नियमों के अनुसार गुज़ारा भत्ता मिलेगा। अपने कार्यों में अखंडता और नैतिकता के ऊँचे मापदण्डों को बनाए रखने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रवक्ता ने कहा कि इन नैतिक-मूल्यों के साथ समझौता करने वाली किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध सखूत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ट की कार्यकारिणी घोषित

प्रदेश संयोजक विद्यानन्द लाँबा ने की नियुक्तियां संयोजक के पद पर सुरत सिंह बाबलिया, सुखविन्द्र सिंह बराड, बलबीर रोहिल्ला, बलवंत पांचाल, एम.आर. लरोइयाँ को नियुक्त किया है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी में शिव प्रसाद शर्मा, ए.के. भनोट, महेन्द्र सिंह नरवाल, रवि चौधरी. संजीव कमार. बी. के.मेहता-रिटायर्ड कमाडेंट. सुख दर्शन अत्री, बलबीर सिंह-रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक, राजपाल शेरा. सतीश कौशल. रणबीर सिंह. हरीश चंद्र गुलाटी, ओम नाथ मालिक, राजरूप यादव, पृष्पेन्द्र शर्मा , ईश्वर सिंह कौशिक, मोहन सिंह मनोचा, श्रीनिवास, शमशेर दलाल , जी.के.अरोड़ा, विनोद बिहारी शर्मा, प्रभु दयाल ग्रोवर, बलदेव सिंह, रणबीर फोगाट, महाबीर सिंह यादव,

भ्रष्टाचार के मामले में

पकड़ा गया सहायक खज़ांची

वित्तविभागद्वारा निलंबित

हिन्द जनपथ, चंडीगढ (ब्यूरो)। हरियाणा भाजपा एच.ओ, यशपाल यादव, संवत सिंह यादव, बी.पी. यादव कर्मचारी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की गई है। रि.ए.एफ. एस.ओ., जे.पी.दहिया, प्रताप सिंह यादव, कर्मचारी प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए प्रदेश संयोजक राजबीर रोहिल्ला, हरीश कुमार भृगू, रतिपाल सिंह, धर्मबीर, विद्यानंद लांबा ने सह संयोजकों, प्रदेश कार्यकारिणी विजय वीर, बिपिन्न कुमार शर्मा और आर.सी. कटोच को सदस्यों और जिला संयोजकों की नियुक्ति की है। भाजपा शामिल किया है। भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी संदीप पनिहाणी ने 🛮 मीडिया प्रभारी संदीप पनिहाणी ने बताया कि भरतपाल को बताया कि प्रदेश संयोजक विद्यानंद लांबा ने सह- पंचकूला संयोजक और मानसिंह सबगा को अंबाला जिला का संयोजक बनाया गया है। इसी प्रकार से रोशनलाल शर्मा को यमनानगर, ईश्वर कौशिक को क्रूक्क्षेत्र, श्यामाल कल्याण को कैथल, श्यामलाल कम्बोज को करनाल, सतपाल जांगड़ा को पानीपत, सतपाल कौशिक को सोनीपत, रवि चौपडा को जींद, बलजीत प्रजापित को झज्जर तथा सभाष भल्ला को रोहतक जिला संयक्त नियक्त किया है। संदीप पनिहाणी के अनुसार हुनमान गोदारा को सिरसा, वेद प्रकाश गौड़ को हिसार, धर्मपाल जांगड़ा को फतेहाबाद, विनोद कुमार को सिंह यादव, कृष्ण जुलानी, किशोरी लाल गुप्ता , जगत सिंह भिवानी, रामोतार यादव को दादरी, सतबीर यादव को महेन्द्रगढ़, हंसराज यादव को रेवाड़ी, ओम प्रकाश यादव कौशिक, विजय अग्रवाल, विजय यादव, समुन्दर सिंह को गुड़गांव, हरकेश सिंह को नूंह, शीतलदास चेयरमैन को पलवल तथा सीके राय को जिला फरीदाबाद ओमप्रकाश यादव, सुरेंद्र यादव, सर्वसुख यादव रि.एस. संयोजक नियुक्त किया है।

कपास/नरमा में गुलाबी सुंडी का बढ़ता प्रकोप - सामूहिक व ठोस मुख्य निर्वाचन अधिकारी कदम उठाने से होगा समाधान

• हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों, किसानों एवं निजी बीज कंपनी धारकों ने गुलाबी सुंडी के प्रबंधन हेतु किया गहन मंथन

हिन्द जनपथ, चंडीगढ़ (ब्यूरो)। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय(सीसीएचएय्), हिसार द्वारा देश के उत्तरी क्षेत्र में लगातार गुलाबी सुंडी के बढ़ते प्रकोप के समाधान के लिए हमें सामृहिक रूप से एकजुट होकर ठोस कदम उठाने होंगे ताकि किसान को आर्थिक नकसान से बचाया जा सके। सीसीएचएयू हिसार के कुलपति प्रो. बी.आर.कम्बोज आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक, अधिकारी व निजी बीज कंपनी के प्रतिनिधियों के लिए विश्वविद्यालय में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। सेमिनार में कपास उगाने वाले 10 जिलों के किसान प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कुलपति ने कहा कि पिछले वर्ष गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज्यादा रहा था, जिसके नियंत्रण के लिए अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग किया गया जो चिंता का विषय है। इस कीट के नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशक एवं अन्य कीट प्रबंधन के उपायों को खोजना होगा तथा हितधारकों के साथ मिलकर सामृहिक प्रयास करने होंगे। तभी किसान को बचाया जा सकता है। किसान नरमे की बन्छटियों को खेत में न रखें। यदि रखी हुई है तो बिजाई से पहले इन्हें अच्छे ढंग से झाडकर उसे दूसरे स्थान पर रख दें और इनके अधिखले टिण्डों एवं सखे कचरे को नष्ट कर दें ताकि इन बन्छिटियों से निकलने वाली गुलाबी सुंडियों को रोका जा सकें। इसके अलावा, नरमा की बिजाई विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित बी.टी. संकर किस्मों की 15 मई तक पूरी करें एवं कीटनाशकों एवं फफूंदीनाशकों को मिलाकर छिडकाव न करें।

दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं को मिलेगी आवश्यक सुविधाएं :

• एनएसएस और एनसीसी कैडेट करेंगे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की सेवा

हिन्द जनपथ,चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान निर्वाचन विभाग ने दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था की है। जिससे कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सविधा पर्वक कर सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर रैंप, व्हील चेयर, लाने व ले जाने की व्यवस्था, मेडिकल किट इत्यादि स्विधाओं के अलावा उनके साथ एनसीसी एवं एनएसएस के स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा। आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनावों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से सक्षम ऐप भी बनाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की चनावों में अहम भिमका रहती है। प्रदेश में अधिकांश पोलिंग स्टेशन स्कलों में ही बनाए गए हैं। अध्यापक स्कुलों में बच्चों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दें और उन्हें अपने अभिभावकों के साथ-साथ अन्य लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने को कहें। मतदान के दिन जब उनके अभिभावक वोट डालने आते हैं तो वे भी साथ आएं और सेल्फी लेकर इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करें।

केयु ने जारी की युजी सेमेस्टर परीक्षाओं की डेटशीट

हिन्द जनपथ, चंडीगढ (ब्यरो)। क्रुक्षेत्र विश्वविद्यालय, क्रुक्षेत्र द्वारा विश्वविद्यालय तथा संबंधित महाविद्यालयों की युजी सेमेस्टर की डेटशीट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपित प्रो. सोमनाथ सचदेवा द्वारा स्वीकत शैक्षणिक शेडयल के महेनजर यजी छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 मई. 2024 व यजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 मई. 2024 से शुरू करवाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं की डेटशीट संबंधित सूचना महाविद्यालयों के प्राचार्यों को व विश्वविद्यालय की वेबसाइट 222.ठुद्ग2.दाह्वद्म.डुष्ट्रह्नु पर भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पहली मई से ऑफलाइन मोड में आयोजित होने वाली यूजी परीक्षाओं में बीए (जनरल) व ऑनर्स (सब्सिडरी) छठे सेमेस्टर,

exicom EXICOM TELE-SYSTEMS LIMITED

Regd. Office: 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan 173213, Himachal Pradesh, India Telephone: +91 124 6615 200, Email: investors@exicom.in, Website: www.exicom.in, CIN: U64203HP1994PLC014541

Extracts of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023

S.	Particulars	Standalone						Consolidated					
No.		Three months ended	Preceeding three months Ended	Corresponding three months Ended in the Previous year	Year to dated Figure for Current Period ended	Year to dated figure for Previous period ended	Previous Financial year ended	Three months ended	three months Ended	Corresponding three months Ended in the Previous year	Year to dated Figure for Current Period ended	Year to dated figure for Previous period ended	Previous Financial year ended
		December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	- '	Unaudited	Unaudited	Unaudited	· '	Unaudited		Unaudited	,	Unaudited	Audited
1	Total income from continuing Operations (net)	26,267.92	16,174.27		58,430.19	33,787.40		26,529.27	19,817.72	15,019.01	73,263.98	36,869.45	
2	Net profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extra ordinary item), from continuing operations	2,648.52	,	,	5,667.85	ŕ	,	2,216.91	2,258.99	1,089.88	5,808.12	594.53	,
3	Net profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extra ordinary item) from continuing operations	2,648.52	2,137.12	1,133.38	5,667.85	1,577.92		2,216.91	2,258.99	1,089.88	5,808.12	594.53	
4	Net profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extra ordinary items), from continuing operations	1,330.62	1,699.77	1,033.02	3,544.17	1,266.49	,	898.82	1,782.49	1,035.25	3,645.10	506.49	3,267.35
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit & loss account for the period after tax and other comprehensive income after tax)	1,339.35	1,687.75	621.88	3,528.88	(1,191.90)	768.50	1,474.68	2,002.88	1,415.56	4,486.62	(978.52)	1,210.04
6	Paid-up Equity Share capital (Face Value of ₹10/-each)	9,239.62	9,239.62	723.02	9,239.62	723.02	723.02	9,239.62	9,239.62	723.02	9,239.62	723.02	723.02
7	Other Equity			!	-	-	14,337.69	-	-	-	-	-	22,476.85
8	Earnings per equity share (for continuing operations)* (Face Value of ₹10/-each)												
	Basic (In ₹)	1.44			3.85			0.98	1.94	1.13	3.96	0.55	
	Diluted (In ₹)	1.44	1.85	1.12	3.85	1.38	3.54	0.98	1.94	1.13	3.96	0.55	3.55
	Earnings per equity share (for discontinued operation)* (Face Value of ₹10/-each)												
	Basic (In ₹)	'		(0.42)		(2.68)	(2.68)	-	-	(0.42)	-	(2.68)	(2.68)
	Diluted (In ₹)			(0.42)	-	(2.68)	(2.68)	-	-	(0.42)	-	(2.68)	(2.68)
	Earnings per equity share (for discontinued & continuing operations)* (Face Value of ₹10/-each)												
	Basic (In ₹)	1.44			3.85	` '		0.98	1.94	0.70	3.96	(2.13)	0.87
	Diluted (In ₹)	1.44	1.85	0.70	3.85	(1.30)	0.85	0.98	1.94	0.70	3.96	(2.13)	0.87

- 1. The above Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on March 21, 2024. These Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company and they have issued an unmodified review report on these Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results.
- 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 filed with Stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial result are available on the Company's website i.e www.exicom.in and Stock exchange website at BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com)

By the order of the Board For Exicom Tele-Systems Limited **Anant Nahata** Managing Director Cum CEO DIN:02216037

Place: Gurugram Date: March 21, 2024